

जाम से मुक्ति का इंतजाम | इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत होगा काम, सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे

# हर चौराहे पर लगेगी एडेप्टिव ट्रैफिक लाइट

## भास्कर ब्रेकिंग

राकेश रंजन | पटना

अगले साल तक राजधानी में 97 जगहों पर एडेप्टिव ट्रैफिक लाइट लगा जाएंगी। ये लाइट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत काम करती हैं। इस सिस्टम से यह पता चलता है कि सड़क पर वाहनों की कतार कितनी लंबी है। यानी ट्रैफिक सिस्टम में लगी लाल, हरी व पीली बत्ती के जलने व बुझने का समय फिक्स्ड न हो कर, इस पर निर्भर करता है कि किस सड़क पर वाहनों का दबाव कितना है। इस सिस्टम से यह भी पता चलता है कि आगे जाम है, इसलिए हमें किस ओर जाना है, सिग्नल खुद ही ट्रैफिक को डायवर्ट कर देगा। इसके लगने के बाद लोग जाम में फंसने से बच सकेंगे और वैकल्पिक रास्ते से जा सकेंगे।

इस सिस्टम के तहत चौराहों पर सेंसर युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी कंट्रोलिंग के लिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनेगा। ऑपरेशन की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की होगी। बिजली भुगतान, मरम्मत व डैमेज कंट्रोल नगर निगम को करना होगा।

## 26.71 करोड़ खर्च होंगे

इस सिस्टम पर 26.71 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। उसने डीपीआर तैयार कर ली है। ये लाइट सगुना मोड़ से पटना सिटी व पटना-फुलवारीशरीफ रोड, गांधी मैदान के आसपास लगाई जाएंगी।

## फायदा

- ईंधन व समय की बचत।
- जाम से छुटकारा।
- हदसों में कमी।
- सड़क पर हदसा होने या जाम के दौरान ट्रैफिक को डायवर्ट करेगा। सिग्नल बताएगा कि किस तरफ रास्ता खाली है।

## पहले यहां थी लाइट

डुमरा मोड़, ललित भवन, आईपीएस मेस, हड़ताली मोड़, बेनी रोड क्रॉसिंग, बोरिंग रोड, शिवपुरी मोड़, आयकर चौराहा, वोल्टास मोड़, कोतवाली टी, डाकबंगला चौराहा, भट्टाचार्य मोड़, धिरैयाटांड पुल उत्तरी व दक्षिणी छोर, एज्जीबिशन रोड, बाकरगंज, नाला रोड व अनीसाबाद।

## क्या है एडेप्टिव ट्रैफिक लाइट

- एडेप्टिव सिग्नल कंट्रोल टेक्नोलॉजी सेंसर पर आधारित होता है।
- इस सिस्टम में लगे सेंसर गाड़ियों की संख्या और दिशा के आधार पर रुकने-चलने का सिग्नल संदेश देते हैं।
- सेंसर की मदद से सिग्नल सिस्टम लाइट के समय का निर्धारण करता है।
- इसके लिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम होता है। उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, जो सेंसर से प्राप्त संदेशों के आधार पर सिग्नल को कमांड देता है।

**ऐसे करेगा काम :** फर्ज कीजिए, एक सड़क पर पांच गाड़ियां हैं और दूसरी ओर 20 गाड़ियां। अभी सिग्नल में समय फिक्स्ड रहता है। जिधर पांच गाड़ियां हैं, उस साइड के लिए जितना समय मिलता है, उतना ही जिधर 20 गाड़ियां हैं, उस साइड के लिए भी। एडेप्टिव सिस्टम में पांच गाड़ियां निकल जाएंगी तो उधर तुरंत लाल बत्ती जल जाएगी।



## यहां लगता है जाम

एज्जीबिशन रोड से इनकम टैक्स गोलंबर, स्टेशन गोलंबर से जीपीओ गोलंबर, शेखपुरा से जगदेव पथ, अशोक राजपथ

## दो साल में ही खराब हो गई लाइट

वर्ष 2005 में 17 स्थानों पर ट्रैफिक लाइट लगी थी। इस पर एक करोड़ 19 लाख, 63 हजार 605 रुपए खर्च हो गए। ये लाइट डेढ़-दो साल में ही खराब हो गई। कोलकाता की कंपनी को मेंटेनेंस करना था। वह फरार हो गई। 2011 में कोतवाली थाने में उस पर केस हुआ था। कंपनी ने पुरानी पद्धति से लाइट लगाई थी। इसमें सिग्नल के समय फिक्स्ड थे।

## वैकल्पिक रूट का चलेगा पता

लोगों को जाम के दौरान वैकल्पिक रास्ता बताया जाएगा। धरना-प्रदर्शन के दौरान जब चारों ओर जाम लगा जाएगा, तो यह सिस्टम कैसे काम करेगा, इस पर मंथन चल रहा है।

## क्या कहते हैं एक्सपर्ट

- संजीव सिन्हा, ट्रैफिक एक्सपर्ट, हेड, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, एनआईटी
- वर्तमान में सड़कों पर 30 फीसदी अतिक्रमण है। इस वजह से औसत चौड़ाई दो मीटर घट गई है। इसलिए अतिक्रमण हटाना होगा।
  - जहां सड़कें कर्व होती हैं, वहां यह सिस्टम कैसे काम करेगा, यह सोचना होगा।
  - प्रदर्शन के दौरान जाम के कारण सिस्टम कैसे काम करेगा, इस पर मंथन करना होगा।

राजधानी में एडेप्टिव ट्रैफिक लाइट व

सीसीटीवी लगाने का काम जल्द शुरू होगा। बुडको को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। डीपीआर तैयार है। 97 जगहों पर लाइट लगेगी।



एस सिद्धार्थ, सचिव, नगर विकास एवं आवास

